

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् राँची झारखण्ड ,
प्रथम सावधिक परीक्षा 2022-23

मॉडल प्रश्न पत्र

सेट 1

कक्षा- 10	विषय- वाणिज्य- बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व	समय- 1.30 Hrs	पूर्णांक- 40
-----------	---	---------------	--------------

सामान्य निर्देश:-

- कुल 40 प्रश्न हैं।
- सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है।
- प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिये।
- गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे।

Q1. चालू संपत्तियों के उदाहरण हैं -Examples of current assets is /are: (a) रोकड़ (Cash) (b) अंतिम रहतिया (Closing Stock) (c) देनदार (Debtor) (d) इनमें सभी (All of these)

Q2. प्राप्त बट्टे का लेखा किस खाते में होता है?(Discount received is included in which account ?

- (a) लाभ हानि खाता (P/L Account) (b) आर्थिक-चिट्ठा (Balance Sheet)
(c) व्यापार खाता (Trading Account) (d) आय - व्यय खाता (Income Expenditure A/c)

Q3. व्यापार खाता किस प्रकार का खाता है ? (Which type of Account is Trading Account ?)

- (a) व्यक्तिगत खाता (Personal Account) (b) वास्तविक खाता (Real Account)
(c) नाममात्र का खाता (Nominal Account) (d) उचन्त खाता (Suspense Account)

Q4. यदि विक्रय 5500 रु० तथा सकल लाभ 1200 रु० हो तो बेचे गये माल की लागत क्या होगी ? (If sales is Rs 5500 and Gross Profit is Rs 1200 what is the cost of goods sold ? (a) 4500 रु० (b) 6700 रु० (c) 4300 रु० (d) 5500 रु०

Q5. निम्न में कौन सी अमूर्त सम्पत्ति है ? (Which of the following is Intangible Asset ?)

- (a) भूमि (Land)(b) ख्याति (Goodwill)(c) भवन (Building)(d) फर्नीचर (Furniture)

Q6. निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है ? (Which one is not a Financial Expense?)

- (a) ऋण पर ब्याज (Interest on Loan) (b) पूँजी पर ब्याज (Interest on capital)
(c) दान (Charity) (d) दत्त छूट (Discount Allowed)

Q7. एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है- Is the summary of all assts and liabilities

- (a) तलपट Trial Balance (b) लाभ हानि खाते Profit & Loss a/c
(c) चिट्ठा Balance sheet (d) इनमें सभी All of these

Q7. एक अचल संपत्ति नहीं है- ..is not a fixed asset (a)रोकड़Cash (b)उपस्कर फर्नीचर(c) भूमि land (d) सभी All

Q8. इनमें से कौन सा व्यापारिक खाता बनाने का लाभ नहीं है Which of the following is not an advantage of making trading account:

(a) माल की लागत की जानकारी knowledge of cost of goods

(b)तुलनात्मक अध्ययन comparative study

(c) खर्च पर नियंत्रण control over expenses

(d)बाजार के महंगाई पर नियंत्रण control over the market

Q9.निम्न में कौन सी मूर्त सम्पत्ति है ? (Which of the following is tangible Assest ?)

(a) भूमि और भवन Land & Building

(b) फर्नीचर और फिक्सचर Furniture and fixtures

(c) संयंत्र और मशीनरी Plant & Machinery

(d) इनमें सभी All of these

Q10. बैंक अधिविकर्ष व्यापार के लिए _____ है Bank overdraft is a ____ for the business.

(a) खर्च expense (b)आय income (c) संपत्ति assets (d)दायित्व liability

Q11. इनमें से कौनसी प्रतिज्ञापत्र की विशेषता नहीं है Among the following, which is not a feature of a Promissory note?

(a) इसमें केवल दो पक्षकार होते हैं(Only two parties) (b)इसे लेनदार लिखता है(written by creditor)

(c)इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होती(Acceptance not required) (d)इसमें लेखक प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता(writer cannot be the payee)

.Q12.विपत्र को भुनाने की स्थिति में कितने पक्ष रहते हैं?How many parties are involved in case of discounting of bill?

(a) दो Two (b)तीन Three (c)एक one (d)असीमित Unlimited

Q13.वेतन को उपस्कर के नाम पक्ष में खतौनी करना यह एक_____| Posting Salary in debit of Furniture A/c is a ____.

(a) योग की अशुद्धि Errors of Casting (b)खतौनी की अशुद्धि Errors of Posting (c) आगे ले जाने की अशुद्धि Errors of carrying Forward (d) इनमें से कोई नहीं : none of these

Q14.सुधार की दृष्टि से अशुद्धियाँ हो सकती हैं।

(a)एकपक्षीय (b) द्विपक्षीय (c) एकपक्षीय या द्विपक्षीय (d) इनमें से कोई नहीं (none of these)

Q15. अनुग्रह के दिन किसमे मिलते हैं? Which of these get days of grace?

(a) प्रतिज्ञापत्र (b) हुंडी (c) चेक (d) इनमें से कोई नहीं : none of these

Q16. जब लेखक- X विनिमयपत्र को बैंक से भुनाया जाता है (When the bill of exchange is discounted from the bank by drawer X. Journal Entries in the books of A's (लेखक के खाते में प्रविष्टि करें)

(a) B/R ...A/c	Dr	(b)CashA/c	Dr	(c) Cash....	A/c	Dr
To Cash		To B/R		Discount	A/c	Dr
				To B/R		

(d) इनमें से कोई नहीं none of these

Q17. अनादरण की स्थिति में भुगतान की जिम्मेवारी _____की होती है। In condition of dishonour liability of payment is of _____.

(a) बैंक(Bank) (b) स्वीकर्ता(Acceptor) (c) लेखक(Writer) d) इनमें से कोई नहीं
none of these

Q18. यदि विपत्र का किसी तीसरे पक्षकार को बेचान कर दिया गया हो और विपत्र अप्रतिष्ठित हो जाता है तो ऐसी हालत में प्रमाणन व्यय _____द्वारा भुगतान किए जाते हैं।

(a) बचानपात्र (Endorsee) (b) बचानकर्ता (Endorcer) (c) स्वीकर्ता (d) इनमें से कोई नहीं (none of these)

Q19, , जब A ने B से प्राप्य विपत्र पर स्वीकृति प्राप्त की (When A received acceptance of the bill from B.) Journal Entries in the books of B's A/c (स्वीकर्ता के खाते में प्रविष्टि)

(a) B's A/c Dr.

To B/P

(b) A's A/c..... Dr.

To B/P

(c) Cash A/c.... Dr.

To B/P

(d) इनमें से कोई नहीं (none of these)

Q20. तलपट के न मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है (In case of non agreement of Trial Balance the amount is temporarily put to)

(a) लेनदार खाते में (Creditors Account) (b) भूल-चूक खाते में (Suspense Account)
(c) रहतिया खाते में (Stock Account) (d) लाभ हानि खाता (P/L Account)

Q21.अदत्त व्यय को.. (Outstanding Expenses are ...):

(a) लाभ-हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (... debited to Profit & Loss A/c and are shown in the Asset Side of Balance-Sheet.)

(b) लाभ-हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व में दिखाया जाता है। (....debited to Profit & Loss A/c and is shown in the liabilities side of Balance-Sheet.)

(c) लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। (....credited to Profit & Loss A/c and is shown in the liabilities side of Balance-Sheet)

(d) इनमें से कोई नहीं। (None of these.)

Q22.उपार्जित आय (Accrued Income):

(a) को व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is credited to Trading Account and shown in the Asset side of Balance-Sheet)

(b) को लाभ-हानि खाता में नाम किया जाता है और स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is debited to Profit & Loss A/c and is shown in the Asset side of Balance Sheet)

(c) को लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है और स्थिति-विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। (is credited to Profit & Loss A/c and is shown in the liabilities side of Balance-Sheet.)

(d) इनमें से कोई नहीं। (None of these.)

Q23. समायोजन में दी गई अंतिम रहतिया (Closing Stock given in adjustment) -

(a) लाभ-हानि खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। (is Credited to Profit & Loss A/c and is shown in the liabilities side of Balance-Sheet.)

(b) व्यापार खाता में जमा किया जाता है और स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is Credited to Trading A/c and is shown in the asset side of Balance Sheet)

(c) लाभ-हानि खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is Credited to Profit & Loss A/c and is shown in the asset side of Balance-Sheet.)

(d) इनमें से कोई नहीं। (None of these.)

Q24. बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है (Bank Reconciliation Statement is prepared by)

(a) बैंक द्वारा (Bank) (b) लेनदार द्वारा (Creditors)

(c) अंकेक्षक द्वारा (Auditor)

(d) बैंक के ग्राहक द्वारा (Customer of Bank)

Q25. बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए शेष लिया जाता है। (Which balance is taken to prepare Bank Reconciliation Statement)

(a) रोकड़ बही या पासबुक का शेष (Cash Book or Passbook Balance)

(b) पासबुक का शेष (Passbook Balance)

(c) न तो रोकड़ बही का शेष और न ही पासबुक का शेष (Neither Cash Book Balance Passbook balance) (d) रोकड़ बही का शेष (Cash Book Balance)

Q26. पासबुक नकल है (Passbook is a Copy of)

(a) रोकड़-बही में बैंक सम्बन्धी व्यवहारों का (banking transactions in Cash Book)

(b) व्यवसाय की समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों का (all the receipts and payments of busin)

(c) सभी नगद व्यवहारों का (all the Cash transactions)

(d) बैंक द्वारा बनाए गये खातों का (accounts prepared by Bank)

Q27. इनमें से कौन रोकड़ बही की विशेषता है Which of these is the a feature of Cash Book

(a) इसमें नकद और उधार दी=दोनों लेनदेनों का हिसाब किताब रखा जाता है Recording of cash and credit transactions

(b) तिथिवार लेनदेनों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती No need to enter transactions date wise.

(c) यह सहायक बही व प्रधान बही का कार्य भी करती है Cash Book acts as a Subsidiary Book and a Principal Book

(d) None of these.

Q28. त्रिस्तम्भीय रोकड़ बही का रोकड़ स्तम्भ का हमेशा होता है (Cash Column of the three columns Cash Book always has)

(a) जमा आधिक्य (Credit Excess) (b) दोनों में से कोई एक (Any of the two)

(c) नाम आधिक्य (Debit excess) (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q29. देय विपत्र स्वीकर्ता के लिए (Bills Payable is a/an _____ for the Acceptor)

- (a) हानी है (Loss) (b) आय है (Income) (c) संपत्ति (Asset) (d) इनमें से कोई नहीं

Q30. ह्रास सिर्फ _____ पर लगाया जाता है Depreciation is calculated only on _____.

- (a) संपत्तियों (Current Assets) (b) तरल संपत्तियों (Liquid Assets) (c) स्थायी संपत्तियों (Fixed assets) (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q31. इनमें से कौन सीधी रेखा पद्धति का गुण नहीं है (Which of these is not a merit of Straight Line Method)

- (a) संपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता (The value of the asset never becomes Zero)
(b) प्रतिवर्ष ह्रास की राशि निकलने की आवश्यकता नहीं होती. (No need of calculating depreciation every year)
(c) इस पद्धति से ह्रास की राशि निकलना बहुत ही आसान है (Calculation of depreciation by this method is very simple.)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q32. 1 जनवरी, 2020 को एक संयंत्र 72,000 रु. में क्रय किया गया तथा इसे लगाने पर 3,000 रु. व्यय हुए। संयंत्र का अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है, जिसके पश्चात् अवशिष्ट मूल्य 15,000 रु. होगा। सीधी रेखा पद्धति के अनुसार वार्षिक ह्रास _____ होगा। (A plant was purchased for Rs. 72000 on 1st January 2020 and spent Rs. 3,000 on its erection. Estimated effective life of the plant is 10 years with break up value of Rs. 15000, depreciation by Straight Line Method will be _____.)

- (a) 7500 (b) 7200 (c) 6000 (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q33. क्रमागत ह्रास पद्धति के अनुसार किसी स्थायी संपत्ति के ह्रास का मूल्य उसके _____ वर्ष में सबसे ज्यादा होगा। (In Diminishing Balance Method depreciation value of an asset will maximum in the _____)

- (a) अंतिम वर्ष (Last year) (b) बीच के वर्ष (Middle year) (c) प्रथम वर्ष (First year) (d) इनमें से कोई नहीं (None of these)

Q34. आहरण पर ब्याज के समायोजन में यह (Interest on Drawing adjustment)

- (a) पूंजी में जोड़ा जाता है (is added to Capital.)
(b) पूंजी में से घटाया जाता है (is deducted from Capital.)
(c) पूंजी में जोड़ा जाता है और लाभ-हानि खाता में नाम किया जाता है। (is added to capital and debited to Profit & Loss A/c.)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of these.)

Q35. तलपट में अंतिम रहतिया.... (Closing Stock in Trial Balance...)

- (a) को व्यापार खाता में जमा किया जाता है। (is Credited to Trading Account.)
(b) व्यापार खाता में जमा तथा स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is credited to Trading Account and shown in the asset side of Balance-Sheet.)
(c) केवल स्थिति विवरण के सम्पत्ति भाग में दिखाया जाता है। (is shown only in the assets side of Balance-Sheet.)
(d) इनमें से कोई नहीं (None of these.)

Q36. व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक हो तो क्या कहलाता है : (Total of credit side excess over debit side In Trading a/c is-)

- (a) शुद्ध लाभ Net Profit (b) सकल लाभ Gross Profit (c) शुद्ध हानि Net Loss (d) सकल हानि Gross Loss

Q37. इनमें से कौन सा लाभ -हानि खाता बनाने का लाभ नहीं है Which of the following is not an advantage of making Profit & loss a/c?

- (a) सकल लाभ या हानि की जानकारी(Knowledge of gross profit/loss) (b) करों के निर्धारण में सुविधा(Tax calculation) (c) व्यवसाय की प्रगति का अनुमान(Progress of business) (d) इनमें से कोई नहीं (none of these)

Q38. कारखाना के विस्तार में लगायी गयी 10,000 रु. की रकम मरम्मत खाते में डाल दी गयी (Rs. 10,000 spent on extention of factory charged to Repairs Account);

- (a) Suspense a/c Dr. 10000 To Repairs 10000 (b) Repairs A/c Dr 10000 To Factory 10000 (c) Factory A/c Dr 10000 To Repairs 10000 (d) इनमें से कोई नहीं (none of these)

Q39. परम्पराओं के अनुसार त्रुटियों का संशोधन _____ द्वारा किया जाता है (As per Traditional methods Errors are rectified by_____.)

- (a) प्रविष्टियों को काट कर (cutting the entries) (b) प्रविष्टियों को मिटा कर (Erasing the entries) (c) उपयुक्त सुधार की प्रविष्टियों (By suitable entries of rectification) (d) इन सभी (By All)

Q40. प्रारंभिक रहतिया 15000 रु० विक्रय 25000 भाडा -1500 सकल लाभ 9000 क्रय - 13650 तो अंतिम स्टॉक की गणना करें। ? (Opening Stock Rs 15000, Sales - Rs 25000. Frieght - Rs 1500, Gross Profit- 9000, Purchase 13650, then calculate closing stock.)

- (a) रु० 9630 (b) 14500 रु० (c) 15000 रु० (d) 14150

Question Number	KEY
1	D
2	A
3	C
4	C
5	B
6	C
7	c
8	D
9	D
10	D
11	D
12	A
13	D
14	C
15	D
16	C
17	A
18	A
19	B

20	B
----	---

QUESTION NO,	KEY
21	B
22	D
23	B
24	D
25	A
26	D
27	C
28	C
29	D
30	C
31	A
32	C
33	C
34	B
35	B
36	B
37	A
38	C
39	C
40	D